



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 467]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2002/आश्विन 18, 1924

No. 467]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2002/ASVINA 18, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2002

सा.का.नि. 700(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री विजय कुमार गर्ग का मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में त्यागपत्र स्वीकार करती है। केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री रामचन्द्र नीलकंठ भोगले को मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए 31-3-2004 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 17 मई, 2002 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 374(अ) और दिनांक 11 जून, 2002 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 421(अ) के साथ पठित दिनांक 8 मई, 2002 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 345(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"3. श्री रामचन्द्र नीलकंठ भोगले, : महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 20, मित्रमंडल को-ऑपरेटिव को धारा 3 की उपधारा (1) के हार्डिंग सोसाइटी, उस्मानपुर, खंड (ग) के उपखंड (i) के तहत औरंगाबाद-431005 अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए"

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2002

G.S.R. 700(E).— In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 8 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby accepts the resignation of Shri Vijay Kumar Garg as a trustee representing "Other Interest" on the Board of Trustees for the Port of Mumbai. In exercise of powers conferred by Sub-section (3) of Section 10 of the said Act, the Central Government hereby appoints Shri Ramchandra Neelkanth Bhogale as a Trustee to represent "Other Interests" on the Board of Trustees for the Port of Mumbai upto 31-3-2004 and makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping (Ports Wing) G.S.R. No. 345(E) dated 8th May, 2002 read with G.S.R. No. 374(E), dated 17th May, 2002 and G.S.R. No. 421(E), dated 11th June, 2002.

2. In the said Notification, serial number 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"3. Shri Ramchandra Neelkanth Bhogale. 20, Mitramandal, Co-operative Housing Society, Usman Pura. Aurangabad-431005.	Representing "Other Interests" under sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963"
--	---

[फा. सं. पी.टी.-18011/6/2001-पी.टी.]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

[F. No. PT-18011/6/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

3174 GI/2002

